



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 628) पटना, सोमवार, 2 जुलाई 2018

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

25 जून 2018

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2018-405—बिहार राज्यपाल का दिनांक 25 जून, 2018 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्य पाल मलिक, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 20 जुलाई, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना,
दिनांक 25 जून, 2018.

सत्य पाल मलिक,
राज्यपाल, बिहार।”

बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव।

25 जून 2018

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)-०1-०1/2018-406, अधिसूचना संख्या 405 दिनांक 25.06.2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव।

The 25th June 2018

No- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2018-405—The Following order of the Governor of Bihar dated the 25 June, 2018 is hereby published for general information -

“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Satya Pal Malik, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 AM on the 20th July, 2018 in Assembly Chamber, Patna.

Patna,
Dated- 25 June, 2018.

Satya Pal Malik,
Governor of Bihar.”

Brij Raj Rai,
Additional Secretary to Government.

भारत के संविधान के अधीन गठित षोडश बिहार विधान सभा के दशम्-सत्र का औपबन्धिक कार्यक्रम
जुलाई, 2018

शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 2018

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
3. वित्तीय वर्ष 2018—2019 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
4. शोक प्रकाश (यदि हो)।

शनिवार, दिनांक 21 जुलाई, 2018

रविवार, दिनांक 22 जुलाई, 2018

}

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 2018

मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2018

}

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018

वित्तीय वर्ष 2018—2019 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद—विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

वृहस्पतिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2018

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 628-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>